

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay, North-East): I have given notice under rule 72.

MR. SPEAKER: I will allow you only if you are opposing the introduction of the Bill. Nothing else is allowed.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: How can I say that I oppose the Bill without first making some comments?

MR. SPEAKER: You must first say "I am opposing the Bill". Only then I allow you.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Can I explain.....

MR. SPEAKER: No, I will not allow it. The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to give effect to the international Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid."

The motion was adopted.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I introduce the Bill.

MR. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.05 p.m. **13.05 hrs.**

(The Lok Sabha adjourned for launch till five minutes past Fourteen of the Clock)

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at ten minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are supposed to take up the discussion on the floods at 2 O'Clock, but there are some matters under rule 377. Shall we dispose of them before we take up the floods discussion? Shri N. C. Jain.

MATTERS UNDER RULE 377

(j) Maintenance of temples and statues in Khajurabo.

श्री निमल चन्द्र जैन (सिवनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत प्रबलम्बनीय लोक सभ्यत्व के निम्नलिखित विषय का उल्लेख करना चाहता हूँ :—

मैं अभी खजुराहो गया था। वह स्थान विदेशी पर्यटकों में बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है और इस कारण यह बहुत आवश्यक हो गया है कि उस के मंदिर व मूर्तियाँ किसी भी प्रकार से नष्ट न होने पावें मैंने देखा कि मन्दिर व मूर्तियों पर रसायन का लेप हो रहा है। शायद पिछले कुछ वर्षों से यह लेप हो रहा है। उस रसायन लेप का परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे मंदिर के कुछ भागों व मूर्तियों में सीलन आने लगी है और भरो तपती जेट में भी वे सूखती नहीं हैं, गीली ही रहती हैं। इस कारण अब किन्हीं किन्हीं मूर्तियों में से पत्ते भी उधड़ने लगी हैं। इस कारण मंदिर व मूर्तियों के स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है जो कि एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है।

दूसरी बात यह है कि कई मंदिरों में उनकी पीठ पर मूर्तियाँ आड़ी तिरछी चिपका दी गई हैं। जहाँ एक ओर हम विदेशी पर्यटकों को अपनी एक हजार वर्ष पूर्व की अपूर्व कला दिखाते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें यह भी दिखना है कि दस-पच्चीस वर्ष पूर्व के हमारे लोग इतने अकलात्मक थे कि मूर्ति सीधा लगाना भी नहीं जानते थे। अतः आवश्यक है कि पुरातत्व विभाग इस ओर ध्यान दे और गलतियाँ शीघ्र सुधारे।

(ii) Need for reorganisation of distribution pattern of soft coke for Southern States.

SHRI K. T. KOSALRAM (Triuchen-dur): Supplies of soft coke to the four Southern States have virtually dried up. Tamil Nadu got only 1,000 tonnes of soft coke in April last, while Karnataka and Kerala haven't been supplied any quantity for the past several months.

This step-motherly attitude shown to Southern States in soft coke supplies has been deeply resented by the State Governments. Their repeated representations to the Union Energy Ministry and Coal India Ltd., have not evoked any favourable response so far.

It appears that the current distribution pattern is heavily biased in favour of the Northern States. The average monthly quantum of distribution of soft coke to various States in the last six months is as follows:

Bihar—6 rakes (one rake means 1,000 tonnes); U.P.—12 rakes; Punjab—7 rakes; Haryana—3 rakes; Orissa—2 rakes; Himachal Pradesh—1 rake; Delhi—22 rakes; West Bengal—13 rakes; Maharashtra—3 rakes; Andhra—3 rakes; Tamil